

थाना कांट पुलिस टीम को मिली बड़ी सफलता ।

साहसिक मुठभेड के दौरान 25000 का इनामी बदमाश दानिश उर्फ सोहेल को अवैध असलहा सहित किया गिरफ्तार ।

श्री एस. आनन्द पुलिस अधीक्षक शाहजहांपुर के निर्देशानुसार श्री संजय कुमार, पुलिस अधीक्षक नगर के पर्यवेक्षण एवं श्री महेन्द्रपाल सिंह क्षेत्राधिकारी सदर के निर्देशन जनपद में अपराध की रोकथाम हेतु अपराधियों के विरुद्ध सघन अभियान चलाकर की जा रही लगातार कार्यवाही मे थाना कांट पुलिस टीम को बड़ी सफलता प्राप्त हुई ।

इसी क्रम मे दिनांक 24.12.2020 को प्रातः 04.00 बजे कांट पुलिस टीम द्वारा मुखबिर की सूचना पर मु0अ0स0-839/2020 धारा-2/3 गैंग्स्टर एक्ट मे वांछित चल रहे 25000 के इनामी अभियुक्त दानिश उर्फ सोहेल को पुलिस मुठभेड के दौरान कमलनैनपुर तिराहे से गिरफ्तार किया गया । अभियुक्त के कब्जे से एक अदद तमंचा 315 बोर व एक अदद खोखा कारतूस नाल में फसा 315 बोर व एक जिन्दा कारतूस 315 बोर बरामद हुआ तथा अभियुक्त का साथी शानू भागने मे सफल रहा । इस सम्बन्ध मे थाना कांट पर मु0अ0सं0 882/2020 धारा 307 भादवि (पुलिस मुठभेड) बनाम 1- दानिश उर्फ सोहेल पुत्र ताहिर निवासी मो0 कमलनैनपुर कस्बा व थाना कांट जनपद शाहजहाँपुर 2- शानू पुत्र ताहिर निवासी मो0 कमलनैनपुर कस्बा व थाना कांट जनपद शाहजहाँपुर (फरार) व मु0अ0सं0 883/2020 धारा 3/25/27 आयुध अधिनियम बनाम दानिश उर्फ सोहेल पुत्र ताहिर निवासी मो0 कमलनैनपुर कस्बा व थाना कांट जनपद शाहजहाँपुर पंजीकृत कर वैधानिक कार्यवाही की जा रही है ।

गिरफ्तार अभियुक्त दानिश उर्फ सोहेल बहुत ही कुख्यात अपराधी है । इसके द्वारा चोरी, गौ तस्करी आदि अपराध कारित किये है तथा अभियुक्त अवैध असलहा लेकर घूमता था जिससे जनता मे भय व आतंक व्याप्त था । स्थानीय पुलिस द्वारा उक्त अभियुक्त के विरुद्ध गैंग्स्टर सम्बन्धित मु0अ0स0- 839/2020 धारा-2/3 गैंग्स्टर एक्ट की कार्यवाही की गयी थी जिसमे कई दिनों से वांछित चल रहा था । पुलिस अधीक्षक शाहजहाँपुर द्वारा बदमाश दानिश उर्फ सोहेल की शीघ्र गिरफ्तारी हेतु 25000/- रुपये का इनाम घोषित किया गया था ।

नाम पता अभियुक्त

1. दानिश उर्फ सोहेल पुत्र ताहिर निवासी मो0 कमलनैनपुर कस्बा व थाना कांट जनपद शाहजहाँपुर ।

फरार अभियुक्त-

1.शानू पुत्र ताहिर निवासी मो0 कमलनैनपुर कस्बा व थाना कांट जनपद शाहजहाँपुर ।

बरामदगी -

1-एक अदद तमंचा 315 बोर व एक अदद खोखा कारतूस नाल में फसा 315 बोर व एक जिन्दा कारतूस 315 बोर नाजायज ।

आपराधिक इतिहास अभियुक्त दानिश

क्र0स0	मु0अ0स0	धारा	थाना
1	627/2020	379/411 भादवि	कांट जनपद शाहजहाँपुर
2	709/2020	41/102 सी0आर0पी0सी0 व 379/411/420/467/468/471 भादवि	तिलहर जनपद शाहजहाँपुर
3	292/2019	3/5/8 गौ0वध अधि0 व 11 पशु क्रूरता अधि0	कांट जनपद शाहजहाँपुर
4	839/2020	2/3 गैंग्स्टर अधि0	कांट जनपद शाहजहाँपुर

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम

- 1-उ0नि0 श्री प्रतीक शर्मा थाना कांट शाहजहाँपुर
- 2.का0 534 रामसंजीवन थाना कांट शाहजहाँपुर
3. का0 876 अनिल कुमार थाना कांट शाहजहाँपुर
4. का0 1606 रवि कुमार थाना कांट शाहजहाँपुर
5. का0 1612 सुमित कुमार थाना कांट शाहजहाँपुर
6. का0 2332 इमरान खाँ थाना कांट शाहजहाँपुर